

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, छतरपुर

संयोजक :- भारतीय स्टेट बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय , छतरपुर

अर्धवार्षिक बैठक -दिनांक 29/06/2021

### बैठक का कार्यवृत्त

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, छतरपुर की वर्ष 2021 – 22 की प्रथम अर्धवार्षिक बैठक दिनांक 29/06/2021 को भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय छतरपुर , द्वारा ऑनलाइन रूप से गूगल मीट पर अपराह्न 3.00 बजे आयोजित की गई । बैठक की कार्य सूची निम्नानुसार थी :

1. सभी सदस्यों द्वारा लॉग इन एवं पंजीयन ।
2. सदस्य सचिव द्वारा मुख्य अतिथि ,अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का स्वागत
3. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।
4. सदस्य कार्यालयों के उपस्थित कार्यालय प्रमुखों /सदस्यों का परिचय ।
5. सदस्य कार्यालयों द्वारा राजभाषा के सम्बन्ध में उनके कार्यालयों में किये जा रहे कार्यों की संक्षिप्त जानकारी ।
6. राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन पर विचार विमर्श
7. सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों की अनिवार्य उपस्थिति पर चर्चा
8. अध्यक्षीय उद्बोधन
9. धन्यवाद ज्ञापन

बैठक मे हुई कार्यवाही का कार्यवृत्त निम्नानुसार है :-

1. सभी अतिथियों का स्वागत व परिचय:- समिति के सचिव श्री अनुराग शर्मा ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए समिति सदस्यों को जानकारी दी कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, छतरपुर की इस वर्ष की यह प्रथम बैठक है ।
2. सदस्य कार्यालयों द्वारा राजभाषा के सम्बन्ध में उनके कार्यालयों में किये जा रहे कार्यों की संक्षिप्त जानकारी ।: स्वागत व परिचय के पश्चात सभी सदस्य कार्यालयों ने अपने कार्यलय में की जा रही राजभाषा संबंधी गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की एवं हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु उनके कार्यालयों में किये गए विभिन्न आयोजनों के बारे में भी समिति को सूचित किया ।
3. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:- समिति के सभी सदस्य कार्यालयों ने पिछली अर्धवार्षिक बैठक के कार्यवृत्त प्राप्त होने की पुष्टि की एवं सब ने पिछले कार्यवृत्त में निहित बिंदुओं पर सहमति जाहिर की तत्पश्चात कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।
4. राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा व तिमाही प्रगति प्रतिवेदन पर चर्चा :- समिति के सचिव श्री अनुराग शर्मा ने सभी कार्यालयों को समय से तिमाही रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु बधाई दी एवं उनकी तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए उनमें निहित सामान्य कमियों की ओर प्रत्येक कार्यालय का ध्यान आकृष्ट किया । अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निहित लक्ष्यों के अनुरूप राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें । इस संबंध में उन्होंने सुझाव दिया की यदि हम शत प्रतिशत कार्य ही हिन्दी में करेंगे तो सारे लक्ष्य स्वतः ही पूर्ण हो जायेंगे ।

5. सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों की अनिवार्य उपस्थिति पर चर्चा :

आज की बैठक में दो कार्यालयों को छोड़ कर सभी कार्यालयों के प्रमुख उपस्थित थे उपस्थिति पर अध्यक्ष श्री नरेन्द्र कुमार मित्तल ,क्षेत्रीय प्रबंधक ,भारतीय स्टेट बैंक ने प्रसन्नता जाहिर की और उम्मीद जताई की आगे भी बैठक की गंभीरता को देखते हुए सभी कार्यालय प्रमुख बैठक में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे।

अध्यक्षीय उद्बोधन:- समिति के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार मित्तल ,क्षेत्रीय प्रबंधक ,भारतीय स्टेट बैंक भारतीय स्टेट बैंक , क्षेत्रीय कार्यालय छतरपुर छतरपुर ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में सुझाव दिया की समिति के सदस्य कार्यालयों हेतु हिन्दी कार्यशाला आयोजित की जाये ताकि वे तिमाही रिपोर्ट भरते समय होने वाली सामान्य गलतियाँ ना करें और उनके कार्यालय के राजभाषा संबंधी निरीक्षणों में होने वाली किसी असुविधा से बच सकें। उन्होंने ने सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया कि अपने कार्यालयों में होने वाली हिन्दी कार्यशाला में अन्य छोटे कार्यालयों को भी आमंत्रित करें ताकि जिन छोटे कार्यालयों में कार्यशाला आयोजित करने में समस्या होती है वे भी कार्यशाला का लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय ने सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों को राजभाषा निरीक्षणों के दौरान पाई जाने वाली कमियों के निराकरण हेतु सुझाव दिये उन्होंने विशेष रूप से संसदीय राजभाषा समिति और आलेख एवं साक्ष्य समिति की जानकारी दी और आशा व्यक्त की कि सभी सदस्य कार्यालय राजभाषा हिन्दी के निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करेंगे। अध्यक्ष महोदय ने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय ,भोपाल के कार्यालय प्रमुख श्री हरीश चौहान जी का आभार व्यक्त किया की वे अपना मार्गदर्शन समय समय पर समिति को प्रदान करते रहते हैं। उन्होंने

यह भी बताया की अन्य बैठक में व्यस्त होने के कारण वे आज हम से नहीं जुड़ सके .

6. **आभार प्रदर्शन :-** समिति के सदस्य सचिव श्री अनुराग शर्मा ,मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), भारतीय स्टेट बैंक ,प्रशासनिक कार्यालय ग्वालियर ने बैठक के अंत मे सभी सदस्य कार्यालयों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने बैठक मे प्रतिभागिता कर बैठक को सफल बनाने मे अपना योगदान दिया ।  
तत्पश्चात अत्यंत सौहार्दपूर्ण माहौल मे बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई ।

सचिव

(न.रा.का.स. छतरपुर )